



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

अप्रैल 18, 2025

संख्या 16

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	अप्रैल 12	अप्रैल 4	अप्रैल 11	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3535126	3703365	3743990	40626	208864
1.1 संचलन में नोट	3535114	3703352	3743978	40626	208864
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	13	13	0	1
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	101	100	0	-1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना		0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	43	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	969404	930337	930387	50	-39018
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8654	7526	7927	401	-727
2.6 अन्य बैंक	54505	52338	52963	625	-1542
2.7 अन्य	396215	530972	440710	-90263	44495
3 अन्य देयताएं	1761423	2213279	2286477	73199	525054
कुल देयताएं / आस्तियां	6725471	7437960	7462597	24637	737126
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4750070	4925980	4980958	54979	230889
2 सोना	465486	676510	688496	11986	223010
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1357489	1587489	1611944	24454	254455
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	12921	38299	35191	-3108	22271
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	9635	60031	5779	-54252	-3856
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात - आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	122554	134183	124783	-9400	2230
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	5253	13403	13382	-21	8129

* डाटा अनतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	अप्रैल 11, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5833811	677835	68908	1567	121670	9509	468371	34674
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	4948553	574980	54689	892	97719	7422	238043	10327
1.2 स्वर्ण	688496	79997	11986	638	20334	1821	223010	24199
1.3 विशेष आहरण अधिकार	157977	18356	1451	-6	2687	186	7174	279
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	38786	4502	783	43	931	79	143	-131

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अप्रैल 18, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 931571 करोड़	2025													
	अप्रैल 5	अप्रैल 6	अप्रैल 7	अप्रैल 8	अप्रैल 9	अप्रैल 10	अप्रैल 11	अप्रैल 12	अप्रैल 13	अप्रैल 14	अप्रैल 15	अप्रैल 16	अप्रैल 17	अप्रैल 18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	953327	953646	937718	942962	940235	925590	937279							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	102.3	102.4	100.7	101.2	100.9	99.4	100.6							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	अप्रैल 04, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमा राशियां	341553	32139	17068	32139	62303	30014
1.2 बैंकों से उधार	105753	-6222	-6072	-6222	136030	-70604
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	23126	-6789	665	-6789	15046	-49990
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमा राशियां	23114977 (23055111)	534376	525882	534376	2553164 (2444380)	2113869 (2162787)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		2.4	2.6	2.4	13.8 (13.3)	10.1 (10.4)
2.1.1 मांग	2778931	80882	149999	80882	374112	185079
2.1.2 मीयादी	20336046	453494	375883	453494	2179052	1928789
2.2 उधारियां	920055	4806	-3142	4806	273714	145255
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1023206	-38425	-41884	-38425	112358	127662
3 रिज़र्व बैंक से उधार	60031	-251435	-212199	-251435	-64480	49514
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1007763	43474	625	43474	112802	-13777
4.1 उपलब्ध नकदी	77426	-4448	-204	-4448	-15017	-11802
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	930337	47922	829	47922	127819	-1975
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	227202	11401	1902	11401	5050	26973
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	35907	10069	17851	10069	-8451	5700
5.3 बैंकों को अग्रिम	42047	2543	1029	2543	5619	-7350
5.4 अन्य आस्तियां	69720	2367	-2112	2367	45738	-43592
6 निवेश	6664394 (6616628)	-33534	49385	-33534	632147 (544286)	508451 (548546)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.5	0.8	-0.5	11.4 (9.9)	8.3 (9.0)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6663616	-33682	49202	-33682	631790	508805
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	777	148	183	148	357	-354
7 बैंक ऋण	18405387 (17988785)	161414	153006	161414	2734613 (2210357)	1820217 (1927872)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	0.9	0.9	19.7 (16.0)	11.0 (12.0)
7 क.1 खाद्य ऋण	29357	-7174	-1873	-7174	245	8148
7 क.2 खाद्योत्तर ऋण	18376030	168589	154878	168589	2734368	1812069
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18050061	140210	124991	140210	2667868	1790767
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	82350	7387	7747	7387	26360	14136
7 ख.3 भुनाए गए	234613	13554	19038	13554	49618	18218
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	15512	390	464	390	-3883	-1364
7 ख.5 भुनाए गए	22850	-127	766	-127	-5350	-1540

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समाप्त सप्ताह	2024	2025				
	अप्रैल 12	मार्च 14	मार्च 21	मार्च 28	अप्रैल 04	अप्रैल 11
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांख्यिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमा राशि अनुपात	..	..	4.28	..	4.37	..
ऋण-जमा राशि अनुपात	..	..	(4.27)	..	(4.36)	..
वृद्धिशील ऋण-जमा राशि अनुपात	..	..	79.14	..	78.03	..
निवेश-जमा राशि अनुपात	..	..	(80.79)	..	(79.63)	..
वृद्धिशील निवेश-जमा राशि अनुपात	..	..	89.18	..	31.12	..
..	..	..	(86.06)	..	(30.21)	..
वृद्धिशील निवेश-जमा राशि अनुपात	..	..	29.53	..	28.70	..
..	..	..	(29.66)	..	(28.83)	..
वृद्धिशील निवेश-जमा राशि अनुपात	..	..	29.49	..	-6.28	..
दरें	..	..	(28.09)	..	(-6.28)	..
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.25	6.25	6.25	6.25	6.00
नियत रिर्व रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ) दर*	6.25	6.00	6.00	6.00	6.00	5.75
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.25
बैंक दर	6.75	6.50	6.50	6.50	6.50	6.25
आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
बचत जमा राशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारंकिट औसत)	6.52	6.29	6.34	6.35	6.09	6.00
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.87	6.49	6.51	6.52	6.30	6.03
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.03	6.61	6.61	6.52	6.29	6.10
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.05	6.56	6.54	6.47	6.30	6.09
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.16	6.72	6.65	6.62	6.53	6.48
संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.39	87.08	86.22	85.58	85.23	86.14
भारतीय रुपया-यूरो स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	89.13	94.75	93.35	92.32	94.34	97.11
अमरीकी डॉलर का फारवर्ड प्रीमिआ 1-माह	1.04	2.97	4.46	3.12	3.03	2.59
3-माह	1.14	2.41	2.80	2.56	2.54	2.31
6-माह	1.30	2.17	2.36	2.28	2.39	2.19

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मद्दुओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फारवर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 21	अप्रैल 04	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27214355 (27273801)	27782866 (27842733)	568512 (568932)	2.1 (2.1)	546855	2.2	568512 (568932)	2.1 (2.1)	2601205	11.4	2404394 (2355476)	9.5 (9.2)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3620845	3649744	28900	0.8	20512	0.6	28900	0.8	130390	4.0	218957	6.4
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	2923841	83819	3.0	152630	5.9	83819	3.0	377962	16.0	184324	6.7
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20643062 (20702508)	21106073 (21165940)	463012 (463432)	2.2 (2.2)	381829	2.0	463012 (463432)	2.2 (2.2)	2077845	12.2	1984327 (1935408)	10.4 (10.1)
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	110426	103207	-7218	-6.5	-8116	-8.6	-7218	-6.5	15008	21.0	16787	19.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8135829 (8183590)	8501316 (8549082)	365487 (365492)	4.5 (4.5)	135339	1.8	365487 (365492)	4.5 (4.5)	277482	3.8	853961 (813866)	11.2 (10.5)
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1180870	1577390	396521		80338		396521		-273259		303840	
2.1.2 अन्य बैंक	6954959 (7002720)	6923925 (6971691)	-31034 (-31029)	-0.4 (-0.4)	55002	0.9	-31034 (-31029)	-0.4 (-0.4)	550741	9.5	550121 (510026)	8.6 (7.9)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	18644339 (19065706)	18798081 (19214682)	153741 (148976)	0.8 (0.8)	149732	0.9	153741 (148976)	0.8 (0.8)	2221539	15.2	1976203 (1868548)	11.7 (10.8)
2.2.1 रिज़र्व बैंक	35823	21538	-14285		-2982		-14285		-8966		10114	
2.2.2 अन्य बैंक	18608516 (19029883)	18776543 (19193145)	168027 (163262)	0.9 (0.9)	152714	0.9	168027 (163262)	0.9 (0.9)	2230505	15.3	1966090 (1858435)	11.7 (10.7)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5977361	6079051	101690	1.7	9408	0.2	101690	1.7	629914	12.7	502140	9.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36306	36306	0	0	0	0.0	0	0.0	3146	10.4	2874	8.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	5579480 (5989161)	5631887 (6036388)	52407 (47227)	0.9 (0.8)	-252375	-5.1	52407 (47227)	0.9 (0.8)	530875	12.7	930784 (831952)	19.8 (16.0)
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2159098	2205404	46306	2.1	7798	0.4	46306	2.1	167865	10.3	407473	22.7

*: 21 मार्च 2025 से संबंधित।

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 28	अप्रैल 11	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4836336	4875039	41647	0.9	56992	1.2	38703	0.8	277442	6.3	186601	4.0
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3720468	3780610	40626	1.1	57085	1.6	60141	1.6	130288	3.8	212064	5.9
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1003762	991277	1076	0.1	7115	0.7	-12485	-1.2	130801	14.5	-41287	-4.0
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	112106	103153	-55	-0.1	-7208	-7.6	-8953	-8.0	16354	23.0	15825	18.1
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1388403	1614985	37595		86731		226581		-256341		335041	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1362162	1579836	40703		80410		217674		-259003		312771	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	11418	-167240	10181		-32401		-178657		88087		-88692	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-27049	-185651	13307		-29382		-158602		96589		-95716	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5526072	5669221	67027	1.2	-25826	-0.5	143149	2.6	581612	12.6	453965	8.7
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	36632			0	0.0	0	0.0	3146	10.4	3200	9.6
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2126189	2278560	73155	3.3	-28488	-1.6	152370	7.2	139063	8.6	516914	29.3

*: 28 मार्च 2025 से संबंधित।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	एसडीएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	ऋय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल 07, 2025	-	-	16505	-	542	165387	-	-	-	-148340
अप्रैल 08, 2025	-	-	23515	-	385	163624	-207	-	-	-139931
अप्रैल 09, 2025	-	-	19295	-	757	209696	946	-	20000	-168698
अप्रैल 10, 2025	-	-	-	-	43	155389	-	-	-	-155346
अप्रैल 11, 2025	-	-	14317	-	39	191464	-	-	-	-177108
अप्रैल 12, 2025	-	-	-	-	19	137537	-	-	-	-137518
अप्रैल 13, 2025	-	-	-	-	20	134809	-	-	-	-134789

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	फरवरी	मार्च	फरवरी	मार्च	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	185.8	185.8	192.5	192.0	-0.3	3.3	3.3
1.1 ग्रामीण	187.4	187.8	194.5	193.9	-0.3	3.2	3.2
1.2 शहरी	184.0	183.6	190.1	189.9	-0.1	3.4	3.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	139.2	138.9	142.8	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	151.2	151.4	154.8	154.5	-0.2	2.0	2.0
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	181.5	183.2	186.6	184.6	-1.1	0.8	0.8
3.2 ईंधन और बिजली	154.9	152.1	153.8	152.4	-0.9	0.2	0.2
3.3 विनिर्मित उत्पाद	139.8	140.1	143.8	144.4	0.4	3.1	3.1

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
मार्च 21, 2025	532972	117053	6.98 - 8.05
अप्रैल 04, 2025	522897	32046	6.45 - 8.05

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
मार्च 31, 2025	442893	77134	7.00 - 14.46
अप्रैल 15, 2025	521558	91006	6.31 - 11.65

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	अप्रैल 12, 2024	अप्रैल 04, 2025	अप्रैल 11, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	20179	17637	25074
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1504	9107	1582
3 त्रिपक्षीय रेपो	572712	653565	679080
4 बाजार रेपो	567845	564475	696512
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	3216	5897	6319

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

अप्रैल 11, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	14441	25236	35918	198218
182-दिवसीय	46806	61865	10340	219640
364-दिवसीय	69748	87217	45060	361060
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (अप्रैल 11, 2025 तक)	2024-25 (अप्रैल 12, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (अप्रैल 11, 2025 तक)	2024-25 (अप्रैल 12, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	36000	38000	1400697	36000	38000	1039275
2. राज्य सरकारें	15300	22600	1073310	13700	16215	753345

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका (www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://data.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री जी. वि. नथनएल, निदेशक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित हैं।